



Triyansh

14 Jul 2025

05:53 PM

Sambhal

Model: Health-Report

Order No: 121237001


तिथि 14/07/2025 समय 17:53:00 वार सोमवार स्थान Sambhal चित्रपक्षीय अयनांश : 24:12:53
अक्षांश 28:35:00 उत्तर रेखांश 78:34:00 पूर्व मध्य रेखांश 82:30:00 पूर्व स्थानिक संस्कार -00:15:44 घंटे

पंचांग	अवकहड़ा चक्र
साम्पातिक काल : 13:07:46 घं	गण _____: राक्षस
वेलान्तर _____: 00:05:55 घं	योनि _____: अश्व
सूर्योदय _____: 05:27:29 घं	नाडी _____: आद्य
सूर्यास्त _____: 19:15:22 घं	वर्ण _____: शूद्र
चैत्रादि संवत _____: 2082	वश्य _____: मानव
शक संवत _____: 1947	वर्ग _____: मेष
मास _____: श्रावण	रैजा _____: अन्त्य
पक्ष _____: कृष्ण	हंसक _____: वायु
तिथि _____: 4	जन्म नामाक्षर _____: सा-सात्विक
नक्षत्र _____: शतभिषा	पाया(रा.-न.) _____: ताम्र-ताम्र
योग _____: सौभाग्य	होरा _____: शुक्र
करण _____: बालव	चौघड़िया _____: अमृत


विंशोत्तरी	योगिनी
राहु 9वर्ष 7मा 3दि	धान्या 1वर्ष 7मा 5दि
राहु	धान्या
14/07/2025	14/07/2025
16/02/2035	18/02/2027
00/00/0000	00/00/0000
00/00/0000	00/00/0000
14/07/2025	14/07/2025
बुध 18/08/2027	उल्का 19/08/2025
केतु 04/09/2028	सिद्धा 20/03/2026
शुक्र 05/09/2031	संकटा 19/11/2026
सूर्य 30/07/2032	मंगला 19/12/2026
चन्द्र 29/01/2034	पिंगला 18/02/2027
मंगल 16/02/2035	

ग्रह	व अ	अंश	राशि	नक्षत्र	पद	स्वामी	अं.	स्थिति	षट्बल	चर	स्थिर	ग्रह तारा
लग्न		08:48:54	धनु	मूल	3	केतु	गुरु	---	0:00			
सूर्य		28:06:23	मिथु	पुनर्वसु	3	गुरु	शुक्र	सम राशि	1.47	आत्मा	पितृ	सम्पत
चंद्र		12:53:37	कुंभ	शतभिषा	2	राहु	बुध	सम राशि	1.29	ज्ञाति	मातृ	जन्म
मंगल		21:29:34	सिंह	पूर्वाफाल्गुनी	3	शुक्र	गुरु	मित्र राशि	1.20	अमात्य	भातृ	साधक
बुध		20:49:12	कर्क	आश्लेषा	2	बुध	शुक्र	शत्रु राशि	0.97	भातृ	ज्ञाति	क्षेम
गुरु		13:39:32	मिथु	आर्द्रा	3	राहु	बुध	शत्रु राशि	1.26	पुत्र	धन	जन्म
शुक्र		16:46:43	वृष	रोहिणी	3	चंद्र	शनि	स्वराशि	1.54	मातृ	कलत्र	मित्र
शनि	व	07:43:05	मीन	उ०भाद्रपद	2	शनि	केतु	सम राशि	1.32	कलत्र	आयु	विपत
राहु	व	25:33:22	कुंभ	पूर्वाभाद्रपद	2	गुरु	बुध	मित्र राशि	---	---	ज्ञान	सम्पत
केतु	व	25:33:22	सिंह	पूर्वाफाल्गुनी	4	शुक्र	बुध	शत्रु राशि	---	---	मोक्ष	साधक


लग्न-चलित




चन्द्र कुंडली




नवमांश कुंडली



सर्वाष्टकवर्ग



दशमांश कुंडली



स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में धनुराशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी बृहस्पति है। सामान्यतया धनु लग्न में उत्पन्न जातक स्वस्थ, बलवान एवं शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं परन्तु यदाकदा ये अभिमान के भाव का प्रदर्शन करते हैं। धार्मिकता की भावना इनमें विद्यमान रहती है तथा अत्यंत ही बुद्धिमता से सांसारिक कार्यों को सम्पन्न करते हैं तथा उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं फलतः जीवन में धनैश्वर्य एवं सुख संसाधनों को अर्जित करने में ये समर्थ रहते हैं। आदर्शवाद एवं अध्यात्मवाद के मध्य प्रवृत्त रहकर ये भौतिक सुखों का भी उपभोग करते हैं। अन्य जनों के ये विश्वास पात्र होते हैं परन्तु स्वयं दूसरों पर विश्वास कम ही करते हैं। दानशीलता की भी इनकी प्रवृत्ति होती है तथा सामाजिक मान प्रतिष्ठा तथा यश की प्राप्ति होती रहती है। धर्म, राजनीति, कानून तथा गणित या ज्योतिष आदि में इनकी रुचि रहती है तथा परिश्रमपूर्वक इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। भौतिक प्रलोभनों की अपेक्षा इन्हें प्रेम से आसानी से वश में किया जा सकता है।

अतः इसके प्रभाव से आप स्वस्थ एवं बलशाली पुरुष होंगे तथा परिश्रम एवं बुद्धिमतापूर्वक अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करके उनमें सफलता प्राप्त करेंगे। आप एक अध्ययनशील व्यक्ति होंगे अतः विभिन्न विषयों का आपको अच्छा ज्ञान होगा। कला के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी तथा जीवन में निहित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे। साथ ही अन्य जनों से कभी भी द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे। शत्रु एवं प्रतिद्वन्दियों से भी आपका उदारतापूर्वक व्यवहार रहेगा। इसके अतिरिक्त अपनी व्यवहार कुशलता, बुद्धिमता तथा धैर्य से कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे तथा सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे।

लग्न में लग्नेश बृहस्पति की राशि के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा मानसिक रूप से भी प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा तथा अन्य लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। आप एक विद्वान पुरुष होंगे तथा वैदिक धार्मिक या ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का अध्ययन करेंगे तथा इस क्षेत्र में आप परिश्रमपूर्वक कोई विशिष्ट उपलब्धि तथा यश अर्जित करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी आपकी स्थिति सुदृढ़ रहेगी तथा सुखैश्वर्य वैभव एवं सुख संसाधनों को अर्जित करके उनका उपभोग करने में समर्थ होंगे। पुत्र संतति से आप युक्त होंगे तथा इनसे आपको इच्छित सुख एवं सहयोग मिलेगा। साथ ही पिता के प्रति भी आपके मन में पूर्ण श्रद्धा तथा सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी सेवा करने में तत्पर रहेंगे। इससे आपको आत्मसन्तुष्टि की अनुभूति होगी। परिवार की उन्नति एवं समृद्धि में आपका प्रमुख सहयोग रहेगा तथा समाजिक जनों के मध्य प्रतिष्ठा बनी रहेगी।


आप आस्तिक विचारों के पुरुष होंगे तथा धर्म के प्रति आपके मन में निष्ठा रहेगी तथा श्रद्धापूर्वक सम्पन्न करेंगे। साथ ही तीर्थयात्रा आदि के भी योग बनेंगे। मित्र एवं बन्धुवर्ग के मध्य आपकी लोकप्रियता रहेगी तथा उनसे पूर्ण सम्मान सहयोग तथा लाभ मिलता रहेगा। इस प्रकार आप स्वस्थ बुद्धिमान विद्वान पराक्रमी तथा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तथा सर्व भौतिक सुखों को अर्जित करके सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे।

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	97%	दम्पति, स्वास्थ्य, सुख
माणिक्य	सूर्य	83%	दम्पति, भाग्योदय
मूंगा	मंगल	81%	भाग्योदय, सन्तति सुख, कम खर्च
लहसुनिया	केतु	69%	भाग्योदय, दम्पति
नीलम	शनि	62%	सुख, धन, पराक्रम
गोमेद	राहु	61%	पराक्रम, सुख
हीरा	शुक्र	21%	शत्रु व रोग, हानि
पन्ना	बुध	9%	दुर्घटना, दाम्पत्य कष्ट, व्यावसायिक हानि
मोती	चंद्र	0%	पराक्रम हानि, दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
राहु	16/02/2035	70%	0%	69%	9%	97%	34%	69%	73%	56%
गुरु	16/02/2051	89%	0%	88%	0%	100%	0%	62%	61%	69%
शनि	16/02/2070	70%	0%	69%	22%	97%	34%	75%	67%	56%
बुध	16/02/2087	89%	0%	81%	34%	97%	34%	62%	61%	69%
केतु	16/02/2094	70%	0%	88%	9%	97%	34%	50%	47%	81%
शुक्र	17/02/2114	70%	0%	81%	22%	97%	46%	69%	67%	75%
सूर्य	18/02/2120	95%	0%	88%	9%	100%	0%	50%	47%	56%
चंद्र	17/02/2130	89%	9%	81%	22%	97%	21%	62%	47%	56%
मंगल	17/02/2137	89%	0%	94%	0%	100%	21%	62%	47%	75%

लग्न फल

आपका जन्म मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में धनु लग्नोदय काल हुआ था। साथ-साथ मिथुन नवांश एवं धनु राशीय द्रेष्काण भी उदित था। ज्योतिषीय आकृति के अनुसार आपके जीवन की परियोजना से ऐसा दृश्य हो रहा है कि आप धन-धान्य से पूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्नतम जीवन यापन करने वाले प्राणी हैं। निःसंदेह एक भाग्यशाली होकर उत्पन्न हुए हैं।

आप हर परिस्थिति में अपने पक्ष एवं अपनी भलाई की आकांक्षा रखते हैं। आपका व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रतिभा संपन्न है। आप एक संवादपटु, दिलचस्प, उच्चस्तरीय, विवेकी प्राणी हैं। आप निर्भिक प्रभावशाली एवं जनसामान्य की दृष्टि में सच्चा व्यक्ति हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपको गलत दिशा निर्देश कर आपको मुश्किल में डालना चाहता है, तो आप भ्रमित नहीं होते क्योंकि आप एक प्रसन्नतम परिवारिक जीवन से युक्त हो।

एक अच्छा व्यक्ति इससे अधिक और क्या अभिलाषा कर सकता है। आप स्वास्थ्य के दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से यह निर्देश है कि कुछ वर्षों के पश्चात जैसे वायु रोग गठिया, अल्सर, कफ, जुकाम, सर्दी तथा रक्तचाप जैसे रोगों से पूर्ण सतर्क रहे।

यदि आप पूर्व में इन रोगों के प्रति यदि सतर्कता नहीं बरते तो आपको दुःखी होकर रहना पड़ेगा। आप अपनी अच्छी उन्नति हेतु धर्म एवं दर्शन के प्रति दिलचस्पी लेकर संबंधित अच्छी भावनाओं से युक्त होकर गहन अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जीवन एक दर्शन है तथा आप धार्मिक दान-प्रदान हेतु कुछ धन का सदुपयोग कर सकते हैं।

आप अपनी अवस्था के 27 वें वर्ष में अथवा 31 वें वर्ष में अकस्मात् महान धनी हो सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त दोनों समय में से कोई दो वर्ष आपके लिए अत्यधिक लाभजनक समय रहेगा। इस समय आप संगठनात्मक सेमिनार एवं सामूहिक वाद-विवाद का अच्छा संगठनात्मक आयोजन की क्षमता प्राप्त करेंगे। आप स्वभावगत अतिरिक्त योग्यता के अनुसार अपने भाषण के प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर बुद्धिमानी में प्रवीणता प्राप्त कर लेंगे। यदि आप इस कार्य में अच्छी प्रकार उभर कर आए तो आपको यह आशा रहेगी कि आप आगे भी अपने कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे मात्र आपका अस्तित्व ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आपके विषय से संबंधित क्षेत्र भी विस्तृत होगा।

यद्यपि आप एक समझदार पत्नी एवं अच्छी संतान प्राप्त कर सर्व प्रकार से परिवारिक जीवन को मधुरतम एवं आनंददायक अनुभव करेंगे। क्योंकि आप छोटी-छोटी बातों को सोचकर क्रोधित हो जाते हो तथा शीघ्रता पूर्वक आपकी उत्तेजना का अंत हो जाता है। परिणामस्वरूप आप स्वतः अपनी गुस्ताखी का अहसास करते हो। आप इस प्रकार की वाह्य आक्रोश पर नियंत्रण रखे।

आपके व्यवसायों में अनुकूल पेशा, वकालत, लेखक, वक्ता, राजनीति अथवा धार्मिक प्रचारक का कार्य उत्तम प्रमाणित होता है।

आपके लिए साप्ताहिक दिनों में मंगलवार, गुरुवार, एवं रविवार का दिन बहुत

उत्तम प्रमाणित होगा। शुक्रवार एवं शनिवार का दिन एकदम खराब है।

आपके लिए अंकों में महत्वपूर्ण अंक 3, 5, 6 एवं 8 अंक प्रभावशाली है। शेष अंक 2, 7 एवं 9 अंक त्याजनीय हैं।

आपके लिए अनुकूल रंग सफेद, क्रीम रंग, नारंगी, नीला, हरा एवं सूआपंखी रंग शुभता प्रदायक है। परंतु रंग लाल, मोतिया एवं काला रंग प्रतिकूल है।



रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहां आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ेतरा कराने वाला है।

आठ मुखी - राहू ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली धनु लग्न की हैं। आदर्शवादी होने के कारण आप उत्साही रहते हैं। छल-कपट की भावना आपमें नहीं होती और कभी इनके साथ ऐसा होने पर ये लोग काफी समय तक उस बारे में सोचते रहते हैं, तो इन्हें अपनी इस आदत का बदलने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में आपके धन संयम/प्रबंधन (वर्तमान में वित्तीय प्रबंधक या सलाहकार) की कला से ओतप्रोत बने रह सकते हैं। आपमें दूरदर्शिता का गुण भी देखा जाता है जिस कारण इनके कार्यों में हानि की मात्रा में भी कमी आती है।

ईश्वरप्रिय होने के कारण गलत कार्यों से दूरी बनाये रखते हैं और कभी-कभी चिन्तित भी हो जाते हैं। आप हमेशा प्रसन्नचित्त अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। आप अपनी

बातों में गंभीरता लिये होते हैं। धनी, सम्मानित और समाज में प्रतिष्ठित होने की योग्यता रखते हैं। आप अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं, परन्तु बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें अन्यथा आलोचना के पात्र बन सकते हैं। आपकी वित्त प्रबंधन / सलाह अच्छी होती है।

षष्ठ, अष्टम व द्वादश भाव दुष्ट व अशुभ स्थान हैं। अपनी कुंडली की शुभता में वृद्धि करने के लिए आपको छः, आठ व बारहवें भाव - भावेश को शुभता प्रदान करनी होगी। कुंडली के ये भाव आपको रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं, देने के साथ साथ दैहिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक कष्ट दे सकते हैं। इन सभी विषयों के साथ साथ षष्ठ भाव प्रतियोगिता, संघर्ष तथा सौतेली माता का भी भाव है।

कुंडली में षष्ठ भाव का पीड़ित होना या इस भाव में अन्य ग्रहों का स्थित होना उपरोक्त सभी वस्तुओं में अशुभता लाता है। धन, मृत्यु का कारण व समय, अवनति तथा राज्यभंग लग्न से आठवां भाव अष्टम कहलाता है। इस भाव से आयु, बिना कमाया हुआ धन, मृत्यु का कारण व समय, अवनति तथा राज्यभंग की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टम भाव की तरह द्वादश भाव में भी सभी ग्रह अनिष्ट करते हैं। द्वादश भाव भी त्रिक भाव है। यह भाव आपकी निद्रा, धन का निवेश, विवाह में विलम्ब, अधिकार का नाश, कैद, शरीर विकार तथा हानियों की जानकारी देता है।

6, 8, 12 भावों के स्वामियों और इन भावों में स्थित ग्रहों में अशुभता का अंश पाया जाता है। जिसके फलस्वरूप ये आपके जीवन को समय समय पर बाधित करते रहते हैं। व 6, 8, 12 भाव के स्वामी तथा इन भावों में स्थित ग्रह अपनी महादशा-अन्तर्दशा में अनिष्ट तथा अशुभ फल देते हैं।

आपके लग्न के लिए शुक्र षष्ठेश व एकादशेश है, आप की संतान विद्रोही हो सकती है, जीवन साथी से अनबन, मन में खिन्नता, व्यभिचारी तथा बन्धु विरोधी हो सकते हैं।

चन्द्र अष्टमेश हैं। आपके धनु लग्न में अष्टमेश चन्द्र है, चन्द्र की यह स्थिति आपको बचपन में कष्ट, पानी के दुष्प्रभाव से होने वाले रोगों के प्रभाव में शीघ्र आने की संभावना, यह योग धन व सम्मान की हानि का कारण बनता है।

मंगल द्वादशेश तथा पंचमेश होते हैं। व्यय अधिक, विद्या व बुद्धि से अल्प लाभ, संतान से न्यून सुख, भाई-बहनों से सामान्य सुख, सामान्य पराक्रमी, शत्रु से संघर्ष में सफल, जीवन साथी से कष्ट दे सकता है।

शुक्र की स्थिति छठे भाव में आपको शत्रु विजयी बना रहा है, मामा का सुख, द्विभार्या योग, दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद, अंतरजातीय विवाह की संभावनाएं देता है।

अष्टम भाव आयु, पुरातत्व और अन्वेषण का भाव है। आपकी यात्राओं में विध्वन बाधाएं दे सकता है। अष्टम भाव से बुध धन भाव को दृष्ट करता है। इससे धन संग्रह में कठिनाइयाँ आती हैं। बुध की यह स्थिति आपके छोटे भाई बहन को पिताधिक्य, तेज बुखार और दुर्बल देह का कारण बन सकती है। बुध की स्थिति अष्टम भाव में आपको बुद्धिबल से धन संग्रह

की योग्यता दे रही है।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 2, 3, 4, 6 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती है।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।



स्वास्थ्य - 2026

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध अनुकूल रहेगा। आपके मन में सकारात्मक विचार आएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान-पान एवं दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे जिससे आप का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

02 जूनके बाद स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। मौसमजनित बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। अष्टमस्थ गुरुजल तत्व राशि में होने कारण कफ, पाचनतन्त्र व पेट संबंधित बीमारियों से परेशान कर सकते हैं परन्तु 31 अक्टूबर के बाद आप के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा।

जनवरी 2026 के लिए फलादेश

इस माह ग्रहों की स्थिति, योग आपके स्वास्थ्य सुख के लिए अनुकूल बन रही हैं। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की पुरानी अनियमितताओं जैसे बुखार, शीघ्र क्रोध आना इत्यादि में इस माह में कमी आएगी। फिर भी आप अचानक से होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहें। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं बन रही हैं। स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करने के लिए आप आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी किए समय पर ईलाज करायें। ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के पक्ष से शुभ होने के कारण इस अवधि में सरल सामान्य देखभाल से भी आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है। विशेष रूप से इस माह आपको सिर से जुड़े विभिन्न रोग होने की आंशिक संभावनाएं बन रही हैं। बालों में तेजी से गिरावट की स्थिति बन सकती है।

फरवरी 2026 के लिए फलादेश

ग्रह, नक्षत्र स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित विषयों के लिए यह एक अच्छा माह रहेगा। इस माह आपको पुरानी रोग पीड़ाएं से राहत का अनुभव होगा। गले के संक्रमण आदि को आपको गंभीरता से लेना होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का विकार होने पर आपको गंभीरता से जांच तथा ईलाज कराना होगा। साथ ही नेत्रों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर भी आपको विशेष सावधानी से काम लेना होगा। माह अवधि में आपका पाचन तंत्र, गठिया, वायु रोग तथा पुराने रोग प्रभावी न हो इसके लिए आपको इन रोगों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। सामान्य सावधानियां रखना भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा।

मार्च 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर व्यय करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के पक्ष से यह स्थिति बहुत प्रेरणादायक नहीं है। फिर भी छोटी छोटी सावधानियां बनाए रखने से आप चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। अस्थमा और तरह-तरह की जीर्ण अनियमितताओं के होने का खतरा बन रहा है। लगातार

उचित देखभाल सुनिश्चित करने से आप हालात की गिरावट को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने सामर्थ्य शक्ति से अधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। अन्यथा सामान्य दुर्बलता की स्थिति भी आपके लिए काफी नुकसान देह हो सकती हैं। सामान्य सावधानियां निर्धारित करने से और चिंताजनक स्थितियों से स्वयं को दूर रखने से स्थिति आपके नियंत्रण में बनी रहे।

अप्रैल 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। अतः इस माह आप किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों से मुक्त रहेंगे। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी जैसे- जुकाम, खांसी और दमा रोग आदि अपने प्रभाव में ले सकती हैं। तथा आपके पाचन अंग सरलता से अव्यवस्थित हो सकते हैं। अन्य लोगों को इस माह काफी राहत का अनुभव होगा। स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आप सामान्य व्यायाम क्रियाएं कर सकते हैं। इस माह की ग्रह स्थिति आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की कारण उत्पन्न रोगों से बचाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहने के लिए स्वास्थ्य सावधानी बनाए रखें। इस माह आप स्वास्थ्य सावधानी के रूप में सामान्य व्यायाम कर सकते हैं। इससे आप पूरे माह स्वास्थ्य बने रहने की आशा कर सकते हैं।

मई 2026 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका मन और शरीर काफी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। स्वयं की स्वस्थता हेतु आपको अपने छोटे दुःख की भी तत्काल चिकित्सा करानी होगी। दुःख के आरम्भ में ही देखभाल करने से रोग बड़ा नहीं होगा और उसका समय पर समाधान हो जाएगा। समय-समय पर जांच करते रहने से गंभीर बीमारी की संभावना समाप्त होगी। अचानक से होने वाले रोगों पर भी यह उपाय नियंत्रण बनाए रखेगा। परन्तु इस माह नेत्र संक्रमण की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। सामान्य देखभाल करने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक अच्छा माह रहेगा। स्वास्थ्य उपचार से संबंधित चिंता का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

जून 2026 के लिए फलादेश

अपने स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके अनुकूल रहेगा। अतः स्वास्थ्य की चिंता करने का कोई कारण इस माह उपलब्ध नहीं है। पाचन तंत्र विकार, वायु रोग, पुरानी बीमारियां तथा गठिया आदि रोगों से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। नियमित रूप से व्यायाम करते रहने से आपके शरीर की सामान्य देखभाल होती रहेगी। इस माह में बन रहे ग्रह योग आपको गंभीर रोगों से मुक्त रखेंगे। सामान्य से अधिक भोजन करना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। इसके कारण आपके स्वास्थ्य में कमी होकर, स्वास्थ्य हानि हो सकती है। इससे ग्रह स्थिति की अनुकूलता व्यर्थ हो सकती है। अन्य पक्ष से अपना स्वास्थ्य इस माह बेहतर बना रहेगा और आपको इस विषय में अन्य कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

जुलाई 2026 के लिए फलादेश

इस माह में बन रहे ग्रह योगों की स्थिति आपके लिये बहुत उत्तम नहीं बनी हुई हैं। विशेष रूप से यदि आप अल्सर, पीठ दर्द एवं जीर्ण रोग जैसी पुरानी अनियमितताओं से ग्रस्त हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल के लिए व्यायाम कर सकते हैं। अथवा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र चिकित्सा उपचार लेनी होगी। आप अचानक से बुखार रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अथवा आप शीघ्र क्रोध में आ सकते हैं। समय पर इन रोगों से रक्षा करने से आप गंभीर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद आप बचाव कर गंभीर संकटों से बच सकते हैं।

अगस्त 2026 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के पक्ष से बहुत बेहतर नहीं बनी हुई हैं। माह आरम्भ में आपको अपने पुराने रोगों के लिए सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा आपको स्वास्थ्य कमियों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जुकाम, खांसी और जीर्ण प्रकार के रोगों का प्रभाव होने पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा, बवासीर से पीड़ित लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह सितारों की स्थिति आपके अनुकूल न होने के बावजूद आप एक नियंत्रित जीवन शैली का यापन कर अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं तथा स्वास्थ्य सुख को भी बनाए रख सकते हैं।

सितम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह की ग्रह, नक्षत्र स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होकर स्वास्थ्य शुभता का आशिर्वाद दे रही हैं। इसके अलावा पुरानी अनियमितता होने का खतरा न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। अचानक से होने वाले रोग जैसे बुखार या शीघ्र क्रोध आना जैसी बीमारियों का चिकित्सा उपचार शीघ्र कराना होगा। इससे रोग नियंत्रित रहेंगे और गंभीर बीमारियां जन्म नहीं ले पायेंगी। इस माह का मिला जुला भाग्य आपको लापरवाही न बरतने पर दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बना रहा है। आवश्यक देखभाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

अक्टूबर 2026 के लिए फलादेश

इस माह आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस माह आपको पाचन तंत्र, गठिया और वायु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग तथा पुराने रोगों का रोगी होने पर स्थिति कष्टकारी हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए नियमित रूप से दवा लेनी होगी और अत्यधिक भोग से बचना होगा। बचाव न करने से स्थिति जटिल हो सकती है। पाचन अंगों से संबंधित किसी भी बीमारी का गंभीरता से ईलाज कराना होगा। ऐसा न होने पर बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित जीवन शैली में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर रोग चिंताएं जन्म ले सकती हैं। सावधानी और चिकित्सा पर ध्यान देना

होगा। इस समय की ग्रह स्थिति बहुत उत्तम नहीं कहीं जा सकती हैं। लेकिन इसे निराशाजनक नहीं कहा जा सकता हैं। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि किए बिना, इस अवधि में देखभाल से स्थिति आपके पक्ष में बनी रहेगी।

नवम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, इस माह आपको अपने शुभ भाग्य के लिए आभारी रहना चाहिए। इस माह के ग्रह नक्षत्र यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस अवधि में आपको किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट के परेशान न करने की संभावना बन रही हैं। अत्यधिक परिश्रम करना कुछ खतरनाक हो सकता हैं। आपको इससे बचना होगा। आपको अपने मानसिक और भौतिक संसाधनों पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे बचाव करने के लिए आप को अपने कार्यों का एक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए। यदि आप इस विषय में किसी प्रकार की एहतियात नहीं लेते हैं तो आप गंभीर प्रकृति की समस्याओं में घिर सकते हैं। थकावट और तंत्रिका विकारों को बिल्कुल अनदेखा न करें। अन्यथा छोटे सा रोग देखभाल न करने पर गंभीर मुसीबत का आकार ले सकता हैं। अन्य विषयों के लिए इस माह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें।

दिसम्बर 2026 के लिए फलादेश

इस माह भाग्य की शुभता आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पुरानी अनियमितताओं के न होने का खतरा आपको काफी राहत का अनुभव कराएगा। सभी प्रकार की सावधानी बरतें। वायु रोगों से भी आप बचाव का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से न लेना किसी बड़े रोग को निमंत्रण देना हो सकता हैं। सामान्य सावधानियां रखने से ही आप गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। विशेष रूप से आपको जुकाम, खांसी, कफ जैसी वेदनाओं को लेकर सावधान रहना चाहिए। एक मामूली बीमारी होने से इसका ईलाज तुरंत करना चाहिए। अन्यथा कठिनाईयां हो सकती हैं। इस विषय में यह समय आपके लिए सचेत रहना का रहेगा।

स्वास्थ्य - 2027

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध अनुकूल नहीं रहेगा। अष्टमस्थ गुरुके कारण आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मौसमजनित बीमारियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने खान-पान के साथ साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। सुबह सुबह व्यायाम के साथ योगाभ्यास भी करना चाहिए। समय का सदुपयोग कर अपनी जीवनशैली बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या किसी पारिवारिक परेशानी के कारण दिमागी तनाव न पालें।

जून के बाद लग्न स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित होगी। उस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरु हो जाएगा। लग्न स्थान पर शुभ ग्रह के प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। धार्मिक कृत्यों में रूचि बढ़ेगी जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे।

जनवरी 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के बारे में इस माह की भविष्यवाणी काफी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए इस माह आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा। शीघ्र होने वाले रोग जैसे अचानक बुखार या सूजन होने पर आपको शीघ्र ईलाज करना हितकारी रहेगा। कुछ सावधानियां रखने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। स्वास्थ्य अनियमितताओं को अनदेखा करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। रोग के प्रथम लक्षण स्पष्ट होने पर ही चिकित्सा सहायता लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप सावधानियों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहें आपको यह सुनिश्चित करना है। तथा आपको घटनाओं को समझ कर कठिनाईयों को दूर करना है। यह भी हो सकता है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करें। इसलिए अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार की लिवर समस्या है तो आपको इसके उपचार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर ईलाज कराना और कोई टॉनिक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

फरवरी 2027 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में सितारों की स्थिति आपके प्रतिकूल होने के कारण आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं ही रखना होगा। ग्रह स्थिति के अनुकूल न होने से इस माह में आपको पेट फूलना, वायु रोग, पाचन तंत्र और पुराने रोग के कारण चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती है। ऐसे रोगों को निष्प्रभावी करने के लिए आपको उपचार और आहार के विषयों में सतर्कता बनाए रखनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान स्वयं भुगतना होगा। इसके अलावा आपको लिवर की बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। माह अवधि में अपना विशेष ख्याल रखना आपके लिए मददगार सिद्ध होगा।

मार्च 2027 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह, नक्षत्र योग बहुत शुभ नहीं बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपको निरोगी बने रहने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अनियमितताओं को किसी प्रकार से अनदेखा न करना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से बचें। इससे आप में शारीरिक दुर्बलता आ सकती है। साथ ही स्नायु संबंधी विकार भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस माह से जुड़ी सभी समस्याओं का स्रोत अत्यधिक परिश्रम आ रहा है। इसलिए आपको इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कार्य भार का वितरण करने से स्वास्थ्य विकारों पर नियंत्रण बना रहेगा। समय बहुत अच्छा नहीं है इसलिए ख्याल रखें।

अप्रैल 2027 के लिए फलादेश

यह बहुत अनुकूल माह नहीं है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त सतर्कता और देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यायाम आदि करने से भी आपको लाभ होगा। माह अवधि में पेट, पाचन अंगों में कुछ कठिनाईयां आ सकती हैं। तथा पाचन तंत्र आसानी से अव्यास्थित हो सकता है। इस समय में आपको अपने आहार को लेकर सावधान रहना होगा और पहले से चले आ रहे उपचार का सख्ती से पालन करें। आपको कुछ समस्याओं में विशेष सावधानी बरतनी होगी। खांसी, जुकाम और छाती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संक्रमण की शीघ्र संभावनाएं बन रही हैं। इस प्रकार के रोगों का शीघ्र ईलाज कराना होगा। रोग अवधि में कठिनाईयों को रोकने के लिए चिकित्सा, उपचार और परहेज सभी का ध्यान रखना होगा। जब तक समय आपके अनुकूल न आ जायें आपको अपना ख्याल रखना होगा।

मई 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य की शुभता बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह स्थिति का शुभ सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस माह स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहने के कारण कम ही बने हुए हैं। फिर भी आपको अचानक बुखार या सूजन आदि के ईलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। जिसमें आपको उचित देखभाल और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। तत्काल उपचार से भी लाभ होगा। इस संबंध में उपेक्षा हितकारी नहीं रहेगी। अन्यथा रोग बिगड़ने पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो सकती है। इससे पूर्व किसी भी प्रकार का लिवर रोग हो तो इस रोग से बचाव का आपको ध्यान रखना होगा। बचाव के रूप में आप लिवर रोगों के लिए किसी टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना आपकी स्वास्थ्य चिंताओं में कमी करेगा।

जून 2027 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य अनुकूलता के पक्ष से यह माह आपको अपना शुभ आशीर्वाद दे रहा है। सितारों की शुभता इस माह में आपके स्वास्थ्य सुख में वृद्धि कर रही है। पाचन तंत्र,

गठिया या पुरानी बीमारियों से संबंधित शिकायतें होने पर इस माह पेट फूलना एवं वायु रोग शांत रहेंगे। इन रोगों के लक्षणों का शांत रहना आपको राहत का अनुभव कराएगा। आहार और उपचार के लिए सामान्य सावधानियां रखने से आपको पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती हैं। लिवर की बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा। इस अंग से संबंधित रोग यदि आपको पहले भी रहे हो तो इन रोगों को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो तो आप कोई टॉनिक भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह में स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

जुलाई 2027 के लिए फलादेश

इस माह में अपना स्वास्थ्य सुख बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास नहीं करने होंगे। सितारों की शुभ स्थिति आपके स्वास्थ्य सुख को अनुकूल बनाए हुए हैं। अतः आप इस माह अपने स्वास्थ्य सुख का भरपूर आनंद लेंगे। इस माह आपको अपने सामर्थ्य से अधिक मेहनत करने से बचना होगा। संतुलित स्वास्थ्य नियमों का पालन कर आप इस सुखद स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस माह आपको अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। कार्यों को समय अनुसार बांटना इस संबंध में उपयोगी कदम सिद्ध हो सकता है। फिर भी आप अपने जीवन की अन्य गतिविधियों को सामान्य रूप से कर सकते हैं। किसी पुराने रोग की वापसी आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है। बचाव रखने से स्थिति में सुधार होगा।

अगस्त 2027 के लिए फलादेश

इस माह में सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको इस माह में अपने स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं के विषय में सावधान रहना होगा। बवासीर से पीड़ित लोगों को इसके ईलाज और आहार के लिए पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतने से आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व लिवर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग रहा हो तो आपको इन रोगों से बचाव करने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। इन रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए आपकी जो भी दवाईयां आप लेते हो उन दवाईयों में चूक न करें। लिवर को स्वस्थ करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक भी आप ले सकते हैं। इस माह में आपके स्वास्थ्य से संबंधित घटने वाली घटनाएं आपके अनुकूल नहीं होंगी। सावधानी रखना उत्तम रहेगा।

सितम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह में आपके ग्रह, सितारें शुभ योग बना रहे हैं। जिसके कारण इस माह में स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता करने के अवसर कम ही बनेंगे। इसके अतिरिक्त बुखार, सूजन, अचानक रोग ग्रस्त होने से परेशानियों से आपको राहत महसूस होगी। किसी भी कारण से रोग ग्रस्त होते हैं तो शीघ्र उपचार कराना आपकी राहत को सुनिश्चित करेगा। आपको अपने लिवर रोगों को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य सावधानियां रखनी होंगी। इसके लिए किसी टॉनिक

का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ सावधानियों का पालन कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस माह चिंता करने का अन्य कोई कारण नहीं बन रहा है।

अक्टूबर 2027 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य विषयों के लिए यह माह काफी लाभकारी रहेगा, इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की गठिया, पाचन तंत्र, वायु रोग और पेट फूलना आदि पुरानी बीमारियों से आपको राहत का अनुभव होगा। किसी रोग के प्रभावी होने पर आपको रोग मुक्त होने में अधिक देखभाल नहीं करनी होगी। इस माह में आपको स्वास्थ्य परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आपको इससे पूर्व ही लिवर संबंधी रोग परेशान करते रहते हैं तो इस अवधि में आप इसके उपचार के लिए कोई उपयुक्त दवा ले सकते हैं। बचाव करने से रोग शीघ्र प्रभावी नहीं होंगे।

नवम्बर 2027 के लिए फलादेश

सितारों की पूर्ण शुभता प्राप्त न होने के कारण इस माह अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधित अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में आपको सामर्थ्य से अधिक परिश्रम करने से थकावट से दुर्बलता की स्थिति बनकर गंभीर संकट उत्पन्न होने के संभावना बन रही है। इस माह में आपकी पहली प्राथमिकता अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा शक्ति का व्यय होने से बचाना है। साथ ही इस माह में आप अपनी सहनशक्ति से काम लें। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको अपने कार्यों का पूर्व कार्यक्रम सुनिश्चित करना होगा। साथ ही इस कार्यक्रम का सख्ती के साथ पालन करना होगा। यदि आप को लिवर से संबंधित पुराने रोग है तो आपको इन रोगों के लिए भी सावधान रहना होगा। लिवर को मजबूत रखने के लिए आप दवा आदि भी प्रयोग कर सकते हैं।

दिसम्बर 2027 के लिए फलादेश

इस माह आपके सितारे काफी उत्साहजनक बने हुए हैं। इसलिए इस अवधि में आपके स्वास्थ्यों से संबंधित मामलों काफी अनुकूल रहेंगे। आपको खांसी, जुकाम और पुरानी शिकायतों से राहत मिलेगी। पुराने रोगों की वापसी न होने से यह राहत अवधि लम्बे समय के लिए रहेगी। इस प्रकार की समस्याओं का भविष्य में न होना भी आपको ओर अधिक राहत देगा। यदि आपको इस से पूर्व लिवर संबंधी किसी भी तरह की परेशानियां रही हैं तो इस समय में ऐसे रोग प्रभावी होकर आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। इन रोगों के प्रति एहतियात और सतर्कता रखने से ऐसे रोग शांत रहेंगे। अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप चिकित्सक की सलाह से किसी दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार निवारक उपाय करने से स्वास्थ्य से संबंधित आपकी सभी चिंताएं का निराकरण होगा।

स्वास्थ्य - 2028

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ बढ़िया रहेगा परन्तु किंचित मानसिक परेशानी बनी रहेगी। 28 फरवरी के बाद गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी जिसके प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति व मानसिक शांति, प्रसन्नता एवं सकारात्मक सोच में वृद्धि के संकेत हैं।

24 मई को राहु ग्रह का गोचर लग्न स्थान पर हो रहा है। उस समय स्वस्थ रहते हुए भी बीमारी जैसा अनुभव होता रहेगा। आलस्य की भावना बनी रहेगी। सुबह सूर्योदय के पहले उठकर व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगा।

जनवरी 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे हैं और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचार धारा से दूर होकर हंसमुख बने रहें। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाईयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस प्रकार के रोग के गंभीर रूप धारण करने से पहले आप इसके निवारक उपाय के रूप में सिर के लिए टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। यह माह आपके लिए काफी संतोषजनक माह सिद्ध होगा क्योंकि इस माह में आपके किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की संभावना नहीं है।

फरवरी 2028 के लिए फलादेश

इस माह अवधि के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य सुख को सुनिश्चित कर रहा है। माह अवधि में सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। पाचन तंत्र, गठिया जैसी अनियमितताओं में गड़बड़ी होने से आपकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। माह अवधि में आपको बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गले के रोग आपको स्वास्थ्य परेशानियां दे सकते हैं। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग या लक्षण दिखाई देता है तो आपको इनकी जटिलताओं की बारीकी से जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा।

मार्च 2028 के लिए फलादेश

यह माह आपके सितारों की स्थिति के अनुसार अनुकूल माह सिद्ध हो रहा है। इस माह में ग्रहों के द्वारा आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान हो रहा है। सतर्कता बनाए रखना इस अवधि की विशेष मांग बन रही है। इस माह अवधि में आपको अपने शारीरिक सामर्थ्य से अधिक परिश्रम नहीं करना है। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपने शारीरिक तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ने से बचाने के लिए आप अपनी गतिविधियों की एक तर्कसंगत

अनुसूची तैयार कर उसके अनुसार अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप खेल गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रख भी आप अपने स्वास्थ्य सुख में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अपने कार्यों की अनुसूची का कठोरता से पालन करना आपको रोगग्रस्त होने से बचाएगा। रोगों में कमी होने से आप इस माह अधिक प्रसन्नचित्त नजर आर्येंगे। सहायक माह होने के कारण इस माह के दौरान आपको कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना होने की संभावना बहुत कम बन रही है।

अप्रैल 2028 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रह, सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल है। अपच जैसे रोगों से ग्रस्त लोगों को माह अवधि में इन रोगों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त पाचन अंगों के शीघ्र बिगड़ जाने से परेशान व्यक्तियों को भी इस समय में सुखद अनुभव होगा। फिर भी आप इन रोगों के प्रति नियमित रूप से आवश्यक सावधानी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त खांसी, अस्थमा जैसी पुरानी शिकायतों के प्रति भी आपको सावधानी रखनी होगी। भोजन में विषाक्तता से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सामान्य सावधानियों का पालन करें और अशुद्ध खाना खाने से बचें। सतर्कता बनाए रखने से यह माह आपके लिए काफी उत्साहजनक माह रहेगा।

मई 2028 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के लिए यह माह आंशिक रूप से अनुकूल बन रहा है। सितारों का संयोजन आपके लिए बहुत कम शुभ स्थिति बना रहा है। बुखार एवं शीघ्र क्रोध में आना जैसी गड़बड़ियां आपको परेशानी दे सकती हैं। अचानक से गंभीर बीमारी आपकी चिंताएं बढ़ा सकती है। अतिरिक्त देखभाल करने और बहुत शीघ्र उपचार जैसे कदम उठाना आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार का नेत्र संक्रमण होने की संभावनाएं बन रही हैं। सावधान रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। अन्यथा आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अशुद्ध खाने के प्रति आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। विषाक्त भोजन के कारण आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। यह अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको इस समय में अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए।

जून 2028 के लिए फलादेश

सितारों की शुभता आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए बहुत उदार नहीं बनी हुई है। इसलिए इस माह में आपको कुछ स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट फूलना, पाचन तंत्र, वायु रोगों के रोग तथा पुरानी बीमारियों में फिर से गड़बड़ी हो सकती है। आहार और उपचार दोनों पर निगरानी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आहार पर नियंत्रण रखने से आप आसानी से अपने रोगों पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। सावधानी के साथ-साथ व्यायाम करने से भी स्थिति में सुधार होगा। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है इसलिए अधिक से अधिक

ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

जुलाई 2028 के लिए फलादेश

इस माह सितारों की अनुकूलता से आपके स्वास्थ्य विकारों का समाधान हो रहा है। ग्रहों की शुभता यह सुनिश्चित कर रही है कि इस अवधि में आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके स्वभाव में भी गंभीरता कम और उत्साह अधिक होगा। अत्यधिक परिश्रम के खिलाफ आपको सतर्कता बरतनी होगी। अत्यधिक परिश्रम इस समय बनी हुई सुखद स्थिति को खराब कर सकता है। अनावश्यक रूप से अपने शारीरिक तंत्र पर तनाव डालना ठिक नहीं होगा। अपने दैनिक गतिविधियों को इस प्रकार निर्धारित करें कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के एक बड़े हिस्से का सुधार होगा। इस विषय में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तनाव से बचना आपके स्वास्थ्य सुख के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा इस माह की अनुकूल परिस्थितियां भी किसी गंभीर समस्याओं को रोकने में असमर्थ हो सकते हैं। समय की शुभता होने से इस माह की स्थिति उत्साहजनक बनी हुई है।

अगस्त 2028 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह एवं सितारों आपके स्वास्थ्य को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माह अवधि में स्वास्थ्य शुभता सुनिश्चित हो रही है। इसलिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार के गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करने की संभावना बहुत कम बन रही है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में आपमें ऊर्जा शक्ति अनुकूल रहेगी और आप प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। पाचन तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने और इसमें कार्यात्मक विकार उत्पन्न न होने से आपको राहत प्राप्त होगी। फिर भी आप थोड़ी सावधानियां बनाए रखें। भोजन में विषाक्तता होने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः आप किसी भी अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन न करें और सावधान रहें। अतिरिक्त देखभाल करना आपको आरोग्यता देगा। इसके अलावा चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर यह माह आपकी स्वास्थ्य संभावनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

सितम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रहों की स्थिति आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होना सुनिश्चित कर रही है। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। इस माह में बुखार, सूजन या अचानक से किसी गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका स्वभाव उत्साहजनक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम जैसे विकारों से ग्रस्त लोगों को भी राहत मिलेगी। फिर भी इस माह दुर्घटना या हिंसक चोट की संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य की कुछ अतिरिक्त देखभाल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता को प्रोत्साहित कर रहा है।

अक्टूबर 2028 के लिए फलादेश

माह अवधि में सितारों आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानी या दुर्घटना न होने का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। यह माह आपके लिए एक लाभकारी माह रहेगा। बुखार, सूजन या अचानक से होने वाली गंभीर बीमारियों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की समस्याओं के शांत रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह अवधि में आपका स्वभाव अनुकूल और सकारात्मक बना रहेगा। पुरानी गठिया, जुकाम आदि विकारों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जीर्ण बीमारियों की वापसी न होने से आपको राहत का अनुभव होगा। इस माह में आपको कोई हिंसक चोट लगने की संभावना नहीं बन रही है। अतिरिक्त देखभाल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लिए हुए एक सुखद माह सिद्ध हो सकता है।

नवम्बर 2028 के लिए फलादेश

आपके स्वास्थ्य के लिए यह माह काफी फायदेमंद माह रहेगा। इस माह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। फिर भी इस अवधि में आपको अधिक परिश्रम करने से परहेज करते हुए, सतर्कता बरतनी चाहिए। यह आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं के आमंत्रण का कारण बन सकता है। परिश्रम की अधिकता आपके शारीरिक तंत्र पर अनुचित दबाव डाल सकती है। कार्य और गतिविधियों का पूर्वनिर्धारण आपको अतिरिक्त दबाव से बचाएगा। वरना कुछ अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। उपचार की तुलना में हमेशा एहतियात बेहतर रहेगा तथा माह अवधि में आपको विषाक्त भोजन के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अशुद्ध या बासी भोजन का सेवन करते समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। यह लाभकारी माह है जिसके दौरान आप सामान्य रूप से स्वस्थ रहेंगे।

दिसम्बर 2028 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का संयोजन आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखेगा। माह की संभावनाएं आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता को प्रोत्साहित कर रही है। आप स्वभाव से प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। आपमें उत्साह का भाव बना रहेगा। ठंड में हाथ और पैरों में कोई गड़बड़ी न होने से आपको महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। इस माह में आपका नर्वस तंत्र आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है। भोजन विषाक्तता की स्थिति बन सकती है। अशुद्ध भोजन करने से बचें अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सावधानी रखने से कठिनाईयां कम से कम होंगी और यह आपके लिए काफी फायदेमंद माह सिद्ध होगा।

स्वास्थ्य - 2029

वर्ष का प्रारम्भ स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा। लग्नस्थ राहु के प्रभाव से बीमारी नहीं रहने के बावजूद भी बीमारी जैसा अनुभव होगा। गुरु ग्रह का गोचर शुभ होने के फलस्वरूप स्वास्थ्य श्रेष्ठ व मन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

29 मार्च के बाद द्वादशस्थ गुरु के कारण छोटी-मोटी बीमारियों से परेशानी हो सकती है परन्तु 25 अगस्त से गुरु एवं शनि ग्रह का गोचर एक साथ अनुकूल होने के कारण समय बहुत अच्छा हो रहा है।

जनवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान बनने वाली ग्रह युति आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रही हैं। आप अचानक से किसी रोग के प्रभाव में आ सकते हैं इस प्रकार की बीमारियों के उपचार के प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपचार के बिना यदि स्वास्थ्य शुभता बनी रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। उपचार शीघ्रता से कराना उति उत्तम फल प्रदान करेगा। इससे रोगों का शीघ्र समाधान होगा और रोग अपनी आरम्भिक अवस्था में ही शांत हो जायेंगे। इस माह विशेष चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य के पक्ष से भी यह समय शुभफलदायक बना हुआ है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बन रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप किसी तरह से चिंतित नहीं रहेंगे।

फरवरी 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारें आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ आशिर्वाद दे रहे हैं। इसलिए इस माह में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि गठिया, वायु रोग, पेट फूलना, पाचन तंत्र और पुराने रोगों के निष्प्रभावी रहने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह की ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान न रखने पर अनुकूल स्थिति भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए विपरीत माहौल में रहने से आप रोगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए संक्रमित स्थानों से दूर रहना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी भी तरह का संक्रमण होने पर तुरंत ईलाज कराना लाभदायक रहेगा।

मार्च 2029 के लिए फलादेश

जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए शुभफलदायक रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर इस माह आपको अधिक चिंता नहीं करनी होगी। फिर भी इस माह आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा रखने के लिए कुछ सावधानियां रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस माह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस माह अत्यधिक मेहनत करने से बचना चाहिए।

इसके लिए आपको अपने कार्यों के पूर्व में ही एक रूपरेखा या समय सारणी तैयार करनी होगी। इस समय-सारणी का कठोरता से पालन करने से स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। किसी भी तरह के संक्रमण के प्रति आपको सावधान रहना होगा। इससे आप स्वास्थ्य दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की विफलता आपके स्वास्थ्य रोगों को आमंत्रित कर सकती हैं। इसके अलावा आपको छाती के रोगों के संक्रमण के प्रति भी सावधान रहना होगा।

अप्रैल 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य मामलों का समाधान कर रही हैं। इसलिए इस माह में आप स्वस्थ और कम से कम बीमार रहेंगे। फिर भी यदि आपके पाचन अंग काफी आसानी से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो इस माह में आपको इन रोगों से राहत का अनुभव होगा। वायु रोगों के प्रति सावधानी बनाए रखना हितकारी रहेगा। तथा रोग अनियमितताओं के प्रति सावधान रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए आपको उपचार से बचने के लिए सावधानियों का ध्यान रखना होगा। खांसी, जुकाम और छाती से संबंधित किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आपको एहतियात से काम लेना होगा। रोग ग्रस्त होने पर शीघ्र दवा लेने से स्थिति गंभीर नहीं होगी।

मई 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों का सुरक्षा कवच आपके रोगों को दूर रखेगा। इस माह के अधिकतम समय में आप स्वयं को स्वस्थ और चुस्त रखेंगी। शीघ्र प्रभावित होने वाले रोग जैसे बुखार आदि के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को अनदेखा करने से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को शुभ बनाए रखने के लिए शुभ बनी हुई हैं। अनहोनी होने का कोई संकेत नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी आप अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहें। इस विषय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपना ध्यान रखने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।

जून 2029 के लिए फलादेश

इस माह आप पर भाग्य का शुभ आशीर्वाद बना रहने के कारण आप उत्कृष्ट स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। यदि पेचिश, कब्ज और पुरानी बीमारियों के रोगी हैं तो इन रोगों में गड़बड़ी न होने से आपको विशेष राहत का अनुभव होगा। इस माह आपके पुराने रोग आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं देंगे। फिर भी रोगों के प्रति सामान्य एहतियात रखना आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। बशर्ते की आप इस माह किसी भी मुसीबत को आमंत्रित न करें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने से भी आपका स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। साथ ही आप अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से दूर रहें। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा।

जुलाई 2029 के लिए फलादेश

इस माह के सितारों की स्थिति आपको स्वस्थता प्रदान कर रही हैं। कुछ विषयों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य मामलों का इस माह समाधान होगा और आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको सावधानी के रूप में अत्यधिक परिश्रम से बचना होगा। स्वयं को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आपको सभी प्रकार की सामान्य गतिविधियों को समय देना चाहिए। खेल और रुचियों को समय देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यों में कमी करने के लिए आप एक कार्य सारणी बनाकर इसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व चली आ रही स्वास्थ्य अनियमितताओं का आपको ख्याल रखना होगा। अप्रिय लोगों और अप्रिय स्थानों से दूर रहना होगा। तथा स्वास्थ्य सुख में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अच्छे वातावरण में रहना होगा।

अगस्त 2029 के लिए फलादेश

इस माह में बन रही ग्रह संयोजन की अनुकूलता आपको चिंतित होने के बहुत कम कारण दे रही है। आंशिक कारणों को छोड़ दे तो इस माह आपका स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास के पर्यावरण की प्रकृति आपके स्वास्थ्य सुख में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अप्रिय स्थानों और लोगों से दूर रहना होगा। यह आपके भाग्य की शुभता में सहायता करेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सामान्य सावधानियां का प्रयोग आपके स्वास्थ्य हित में रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वातावरण आपको विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल स्वभाव के लोगों से बचाएगा। इसके अलावा इस माह में आपको अपनी नेतृत्व शक्ति को सहज बनाना होगा। शरीर के गुप्त अंगों में परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य की उत्तमता आपके जीवन को सुखद बनाए रखेगी।

सितम्बर 2029 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रहों एवं सितारों की शुभता आपको उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान कर आपके स्वास्थ्य विकारों का निराकरण कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने और उसे सुखद बनाए रखने में आपके पास-पास के वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इस विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम बना हुआ है फिर भी इस माह कुछ अनहोनी के संकेत बन रहे हैं। एहतियात के रूप में अप्रिय लोगों, अप्रिय स्थानों से दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहेगा। आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में यह विशेष भूमिका निभाएगा। किसी भी प्रकार के मामूली बुखार या सूजन के ईलाज के विषय में आपको सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे रोगों का शीघ्र उपचार कराने से ये समय पर नियंत्रित रहेंगे।

अक्टूबर 2029 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य को स्थिर रूप में उत्तम बनाए रखने के लिए इस माह की ग्रह, घटनाएं आपको सहयोग कर रही हैं। पाचन तंत्र, पुरानी बीमारियों की गड़बड़ी, पेट फूलना एवं वायु रोग के शांत रहने से आपको इन परेशानियों में काफी राहत का अनुभव होगा। अधिक से अधिक

सामान्य सावधानियां रखने से आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपको राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस माह आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण और सकारात्मक स्वभाव के लोगों के साथ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रखेगा। साथ ही इस अवधि में अप्रिय परिवेश से दूर रखना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। आपके आस पास का सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना इस माह आपके हाथ रहेगा।

नवम्बर 2029 के लिए फलादेश

यह माह आपके लिए सहायक माह होकर आपके स्वास्थ्य को शुभ आशिर्वाद प्रदान कर रहा है। कुछ मामूली समायोजनों को अपना कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आपको अत्यधिक मेहनत से बचना होगा। स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने दैनिक कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार करना होगा। कार्यभार की अधिकता से आपके शारीरिक और मानसिक संसाधनों पर अनुचित दबाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। आपके आसपास का वातावरण भी आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक निर्धारित करेगा। किसी भी तरह के अप्रिय स्थानों और अप्रिय लोगों से बचना आपके स्वास्थ्य सुख को बढ़ाएगा। इस माह को उत्तम बनाए रखना आपके लिए सहज होगा। इसके अलावा यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम माह सिद्ध होगा।

दिसम्बर 2029 के लिए फलादेश

ग्रहों की शुभ स्थिति के आशिर्वाद के कारण यह माह आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसलिए इस माह आपको कम देखभाल और ध्यान की आवश्यकता रहेगी। फिर भी आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखना स्वास्थ्य सुख को बेहतर बनाएगा। यह माह आपके स्वास्थ्य शुभता के लिए अतिउत्तम बना हुआ है। आपके सामान्य परिवेश की प्रकृति भी काफी हद तक आपके स्वास्थ्य शुभता का निर्धारण करेगी। नकारात्मक विचारधारा के लोगों से बचने के लिए आप इस प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखें। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अप्रिय लोगों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति है। खांसी, जुकाम जैसे रोग आपके स्वास्थ्य सुख में आंशिक कमी कर सकते हैं। इन रोगों से बचने के लिए एहतियात बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा।

स्वास्थ्य - 2030

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ अच्छा नहीं रहेगा। लग्नस्थ राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधित चिन्ताएं बनी रहेंगी। मौसमजनित बीमारियों से आप परेशान होते रहेंगे। इस समय के अंतराल में दवा से अधिक दुआ आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 17 अप्रैल के बाद षष्ठस्थ शनि ग्रह के फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य लिए खान-पान एवं दिनचर्या भी सही रखेंगे जिससे आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी।

23 सितम्बर के बाद द्वादशस्थ गुरु के प्रभाव से मोटापा एवं लीवर जनित बीमारियों से परेशानी हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। सुबह-सुबह व्यायाम करना या योगा करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा नहीं तो आपका स्वास्थ्य ज्यादा प्रतिकूल हो सकता है।

जनवरी 2030 के लिए फलादेश

स्वास्थ्य के पक्ष से यह माह आपके लिए एक अच्छा माह रहेगा। इस माह में आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक रहेगी। जिसके फलस्वरूप अपने स्वास्थ्य सुख को बढ़ाने के लिए आपको खाने में संतुलित आहार का प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त आपको शीघ्र होने वाले रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। माह अवधि में अचानक दुःख की घटना के बारे में सतर्कता रखनी होगी। ऐसे किसी भी रोग लक्षण के संकेत प्रकट होने पर आप इनका तुरंत ईलाज करते हुए सावधान रहें और रोगों को गंभीर समस्याओं में बदलने से रोकें। माह अवधि में आपकी उत्पादक शक्तियों में वृद्धि होगी। अपनी ऊर्जा शक्ति से आप स्वयं आश्चर्य चकित होंगे। यह एक शुभ माह है जिसमें आपको अपना कम ध्यान रखना होगा।

फरवरी 2030 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र, वायु रोग और पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा। इस माह अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल रखनी होगी। रोगों के शांत रखने से आपको राहत का अनुभव होगा। अपनी स्वास्थ्य अनुकूलता को बनाए रखने के लिए आपको पोषक तत्वों का सेवन करना होगा। माह अवधि में आपकी उत्पादक जीवन शक्ति बढ़ रही हैं। माह अवधि में आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। गले में सामान्य खराश का ईलाज आपको कराना पड़ सकता है। अन्य रोगों के शांत रहने के योग बन रहे हैं।

मार्च 2030 के लिए फलादेश

इस माह के सितारें आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं बने हुए है। माह अवधि में आपको स्वयं में आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होगा। इस समय में आपको अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की जरूरत रहेगी। आपको सामान्य रूप से अच्छे आहार का लाभ प्राप्त नहीं

हो रहा है। इससे आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य के पक्ष से यह शुभ संकेत नहीं है। इसके अतिरिक्त छाती में किसी भी प्रकार के संक्रमण का पहला लक्षण दिखाई देने पर ही जल्द से जल्द गंभीरता से इसका ईलाज कराना होगा। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की समय हानि उचित नहीं होगी। समय की उपेक्षा किए बिना ईलाज करना आपके लिए काफी सकारात्मक होगा। साथ ही इस अवधि में आप अधिक परिश्रम से बचें। अपने शरीर पर अनुचित दबाव डालने से बचें। कार्यों की अनुसूची तैयार कर आप अतिरिक्त कार्यभार से बचाव कर सकते हैं।

अप्रैल 2030 के लिए फलादेश

आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस माह भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। इसले आपको अपने पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा और अपने स्वास्थ्य की देखभाल के नियम तय करने होंगे। पाचन अंगों में किसी भी प्रकार की शिकायत का पहला लक्षण प्रकट होने पर आपको शीघ्र इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा। माह अवधि में आपको नियमित आहार का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह संभव है कि आप के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। रोगों का समय पर उपचार कराने से आपको इनके कारण लम्बे समय के लिए परेशान नहीं होना होगा। फिर भी इस माह में ग्रहों का योग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी नहीं बना हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों से निबटने के लिए सावधानी और देखभाल से काम लेना होगा।

मई 2030 के लिए फलादेश

इस माह में ग्रहों के शुभ योग की कमी के कारण आपको अपने स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होगी। आप अचानक से होने वाले रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको अपना अधिक ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य अनियमितता का प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देगा। माह अवधि में पौष्टिक भोजन करने से भी आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में यह बहुत ही प्रतिकूल समय नहीं है। बल्कि इस समय में आपको सतर्कता बरतनी होगी। चिंतित होने के बजाय आपको अपने स्वस्थता के लिए दृढ़ उपायों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप स्वस्थता बनाए रख सकते हैं, इसके लिए एक छद्दी सी अतिरिक्त देखभाल करनी होगी। साथ ही रोगों का शीघ्र उपचार कराना होगा। अन्यथा गंभीर परिस्थितियां सामने आ सकती हैं।

जून 2030 के लिए फलादेश

इस माह अवधि में आपको अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि इस माह में ग्रह, सितारों का शुभ आशीर्वाद का अभाव बन रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। पाचन अंग, वायु और पुरानी बीमारियों से संबंधित शिकायतें आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। आपको इन रोगों से बचाव हेतु सतर्कता बनाए रखनी होगी। समय पर उचित उपचार न कराना आपकी समस्याओं को गंभीर रूप प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपके छोटे रोग भी लम्बी अवधि के रोगों में

परिवर्तित हो सकते हैं। आपको अपनी उत्पादक शक्तियों के बारे में भी सावधान रहनी की आवश्यकता रहेगी। सावधानियां एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करेंगी। माह अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको प्रतिकूल समय में स्वस्थता प्रदान करेगा।

जुलाई 2030 के लिए फलादेश

इस माह ग्रह योग आपके स्वास्थ्य को अपना शुभ आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए आपको स्वयं अपना ध्यान रखना होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अनुकूल स्थिति नहीं हैं। इसलिए इस समय में आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माह अवधि में सबसे पहले अधिक परिश्रम करने से बचना होगा। यह कार्य आपके शारीरिक तंत्र पर अधिक दबाव डाल सकता है। अपने दैनिक कार्यों और गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए आप इन्हें दिन के छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अनुसूची भी तैयार कर सकते हैं। अपनी अतिरिक्त देखभाल कर आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बड़े हिस्से का निराकरण कर सकते हैं। स्नायु संबंधी विकार की आंशिक संभावना बन रही है। कुछ सरल योग एवं व्यायाम से स्थिति में सुधार किया जा सकता है। साथ ही सुबह की लम्बी सैर करना भी लाभकारी रहेगा।

अगस्त 2030 के लिए फलादेश

माह अवधि के दौरान आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने स्वास्थ्य की ज्यादा देखरेख करनी होगी। क्योंकि माह अवधि में आपको ग्रहों एवं सितारों की शुभता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। माह अवधि के दौरान आपका शरीर भी पौष्टिक आहार का लाभ ज्यादा उठाने में सक्षम नहीं होगा। पौष्टिक भोजन से भी आपके स्वास्थ्य सुख में अधिक लाभ होने की संभावना नहीं बन रही है। माह अवधि में चोट, दुर्घटना और असंभावित घटनाओं के कारण स्वास्थ्य सुख की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपकी उत्पादक शक्तियां भी प्रभावित हो सकते हैं। यह प्रतिकूल स्थिति कुछ समय के लिए बनी हुई है। उचित सावधानी बरतें और उपयुक्त कदम उठाने से आप माह अवधि में स्वास्थ्य चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं।

सितम्बर 2030 के लिए फलादेश

माह अवधि में स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको ग्रह, सितारों की शुभता प्राप्त नहीं हो रही है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना होगा वरना आपको इसके लिए बड़े पैमाने पर भुगतान करना पड़ सकता है। अचानक से किसी रोग के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। इन संकेतों का शीघ्र उपचार करें अन्यथा मुश्किल हालात उत्पन्न हो सकते हैं। उत्तम पौष्टिक आहार लेने पर भी आपका शरीर इसका पूरा लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा। यह स्थिति अस्थायी और कम समय के लिए बनी हुई है। इस माह में अपना ध्यान और देखभाल रखें। इससे सितारे अनुकूल हो सकते हैं।

अक्टूबर 2030 के लिए फलादेश

इस महीने के दौरान अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे सितारों की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो रही है। गठिया, वायु रोग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ये रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। बीमारियों से बचाव करने के लिए आपको व्यायाम एवं योग आदि कर सावधान रहना होगा। इसके अलावा माह अवधि में सामान्य दुर्बलता की स्थिति भी बन सकती हैं। आपको इसे गंभीरता के साथ देखना होगा और सही समय पर उचित कदम उठाना काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान करेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी का विस्तृत दृष्टिकोण उपयुक्त देखभाल करने में सहयोग करेगा तथा आपको स्वास्थ्य परेशानियों से मुक्त करेगा। अन्यथा यह आपकी चिंताओं का स्रोत बन सकता है।

नवम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के ग्रह एवं सितारों आपको अपना शुभ आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अतिरिक्त ध्यान लगाना पड़ सकता है। अधिक परिश्रम करना अनेक रोगों का कारक बन सकता है। इसके कारण आपको दुर्बलता, थकावट और यहां तक की स्नायु संबंधी विकार हो सकते हैं। इसलिए आपको अधिक परिश्रम करने से बचना होगा। इसके लिए आप अपने कार्यों को कार्य अनुसूची बनाकर बांट सकते हैं। माह अवधि में आप बिना किसी देरी के अपनी सभी नियमित गतिविधियों को पूरा समय दे सकते हैं। इस प्रकार से आपकी 80: समस्याओं का हल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपकी उत्पादक शक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। सामान्य देखभाल करने के अतिरिक्त इस माह में चिंता करने के लिए कुछ नहीं है।

दिसम्बर 2030 के लिए फलादेश

इस माह के दौरान, ग्रह एवं सितारों आपके लिए स्वास्थ्य के मामलों का निराकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस माह में आपको अपनी अतिरिक्त देखभाल और ध्यान रखना होगा। यह भी संभावित है कि माह में आपका शरीर संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण न कर रहा हों, पोषण की कमी के लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे। स्वास्थ्य अनियमितताओं का यह प्रथम संकेत हो सकता है। दृढ़ उपायों पर सावधानियों पर ध्यान केंद्रित कर आप अपने स्वास्थ्य सुख को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। इसके अलावा अपनी उत्पादक शक्तियों को बनाए रखना भी आपके स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने का एक अच्छा विचार हो सकता है। यह मुश्किल अवधि है इस अवधि में अपना ध्यान रखना हितकारी रहेगा।

दशा विश्लेषण

महादशा :- राहु
(14/07/2025 - 16/02/2035)

राहु की महादशा 14/07/2025 को आरम्भ और 16/02/2035 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 18 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में राहु तृतीय भाव में स्थित है। इस स्थान से राहु की दृष्टि नवम भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 7 वर्ष की मंगल दशा चल रही थी। मंगल के कारण आपको लाभ, कुछ स्वास्थ्य समस्या और विरोधियों व शत्रुओं का विरोध मिला होगा। राहु की वर्तमान दशा में आपको शत्रुओं पर विजय, सम्पत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको शक्ति तथा स्फूर्ति मिलेगी। किन्तु, मौसम में परिवर्तन के कारण चर्मरोग, दाहक रोग, स्नायविक दुर्बलता और शारीरिक थकावट हो सकती है। इन मामूली रोगों को दोड़ कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति उत्थन्त सुदृढ़ होगी। आपको सम्पत्ति तथा लाभदायक कार्य की प्राप्ति होगी। सट्टे, निवेश में लाभ मिलेगा। नौकरी में भी सुन्दर लाभ मिलेगा। पिता से अथवा परिवार से लाभ मिल सकता है। उच्चाधिकारियों से लाभ की सम्भावना है। जीविका तथा व्यवसाय के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक सेवा, राजनीति, कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, यातायात, कूटनीतिक कार्य आदि का चयन कर सकते हैं। चमड़े के सामान, पत्थर, रत्न, बिजली के उपकरण, दवा, रसायन आदि का व्यापार लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को लाभ, यश और ख्याति की प्राप्ति होगी तथा जीवन-वृत्ति में प्रगति होगी। व्यवसायियों-व्यापारियों को कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा किन्तु वे अपने रास्ते में आनेवाली सभी बाधाओं का नाश करेंगे। आपकी आय तथा लाभ में वृद्धि होगी और दशा की प्रगति के साथ-साथ व्यापार का विस्तार होगा।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

बुध की अन्तर्दशा में आपको जीवन का सुख मिलेगा। आपके निवास में परिवर्तन हो सकता है अथवा आपको एक मकान की प्राप्ति हो सकती है। आप गाड़ी की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। जमीन-जायदाद के मामलों में नुकसान से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। इस दशा के दौरान आपकी अनेक छोटी यात्राएं होंगी। शुक्र की अन्तर्दशा में दूर की यात्राओं की सम्भावना है।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा लाभदायक होगी। आप तेज ओर दृढ़प्रतिज्ञ हैं और सभी परीक्षाओं में सफल होंगे। विज्ञान, दवा, रसायन शास्त्र, इन्जीनियरिंग, सरकारी सेवा तथा यातायात के क्षेत्र में आपकी रुचि होगी।

परिवार :

परिवार के सदस्यों के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। आपके बच्चों के लिए यह समय लाभदायक और समृद्धि दायक होगा। आपके जीवनसाथी की दूर की यात्रा और समृद्धि तथा सुन्दर भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। आपकी माता की यात्रा, व्यय और धार्मिक कार्यों की ओर उनका झुकाव हो सकता है। आपके पिता को साझेदारों, वाणिज्य-व्यापार और यात्रा से लाभ होगा। आपके छोटे भाई-बहनों को सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी और उनका निवेश सफल होगा। उनके साथ मधुर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा।

अन्तर्दशा :

राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा के कारण आपकी छोटी यात्रा होगी, सम्बन्धियों से सहायता मिलेगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुरु की अन्तर्दशा में जीवन में सफलता मिलेगी। साझेदारों से लाभ होगा और विवाह तथा यात्रा होगी। शनि की अन्तर्दशा के फलस्वरूप परिवर्तन, सौभाग्य की प्राप्ति तथा यात्रा होगी। बुध के कारण यश, ख्याति, सम्पत्ति तथा आनन्द की प्राप्ति होगी। केतु की अन्तर्दशा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र की अन्तर्दशा के दौरान सन्तान से सुख, यात्रा तथा सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सूर्य की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा, शक्ति और सम्बन्धियों से सहायता मिलेगी। चन्द्र की अन्तर्दशा में लाभ तथा जीवन का सुख मिल सकता है। मंगल की अन्तर्दशा के फलस्वरूप कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्या और लाभ प्राप्त हो सकता है।

**अंतर्दशा :- राहु - बुध
(14/07/2025 - 18/08/2027)**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 14/07/2025 को प्रारंभ होकर 16/02/2035 को समाप्त होगी। इस महादशा में बुध अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी जो आपके लिए 14/07/2025 को प्रारंभ होकर 18/08/2027 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्री में अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आयु, विरासत, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुख, चिंता, निराशा, हानि, बाधा, चोरी और डकैती का प्रतिनिधि है। अष्टम भाव में स्थित होकर बुध कुंडली के द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसे अपने कारकत्व से प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपकी आय उत्तम होगी, विरासत में भी धन प्राप्त हो सकता है। विभिन्न विषयों के विद्वान बन सकते हैं। व्यवहार शिष्ट होगा। स्वास्थ्य दुर्बल हो सकता है, अतः सावधानी आवश्यक है।

अरिष्ट से बचाव और शुभत्व में वृद्धि के लिए बुध के वैदिक मंत्र के 9000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- राहु - केतु
(18/08/2027 - 04/09/2028)**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 14/07/2025 को प्रारंभ होकर 16/02/2035 को समाप्त होगी। इस महादशा में केतु अंतर्दशा की अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी जो आपके लिए 18/08/2027 को प्रारंभ होकर 04/09/2028 को समाप्त होगी।

केतु आपकी जन्मपत्रिका में नवम भाव में स्थित है। नवम भाव श्रद्धा, भाग्य, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, अंतर्ज्ञान, भविष्यज्ञान, उपासनास्थल, पिता, धर्मगुरु, लंबी यात्राएं, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा और घुटनों का प्रतिनिधि है। नवम भाव में स्थित होकर केतु आपकी कुंडली के तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप अपने माता-पिता और बड़ों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। दूरदर्शिता की कमी होगी, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा मगर इसका इस्तेमाल दूसरों को बदनाम करने के लिए कर सकते हैं।

आप दिखावापसंद, अभिमानी और अक्खड़ हो सकते हैं, मगर साहसी भी होंगे। ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करना लाभप्रद रहेगा।

अरिष्ट से बचाव के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र के 72,000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- राहु - शुक्र
(04/09/2028 - 05/09/2031)**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 14/07/2025 को प्रारंभ होकर 16/02/2035 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र अंतर्दशा की अवधि 3 वर्ष होगी जो आपके लिए 04/09/2028 को प्रारंभ होकर 05/09/2031 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में छठे भाव में स्थित है। छठे भाव बीमारी, सुश्रूषा, मातहत या सेवक, कर्ज, शत्रु, कंजूसी और अतिकष्ट का द्योतक है। शुक्र शुभ ग्रह है। छठे भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में विपरीत लिंग के व्यक्ति आपसे रुष्ट रह सकते हैं। वे आपका चरित्र बर्बाद कर सकते हैं। शत्रु इस अवधि में समाप्त हो जाएंगे। विषय-वासना में अधिक रुचि के कारण स्वास्थ्य की हानि हो सकती है।

अरिष्ट से बचाव और शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र वैदिक मंत्र के 16000 जाप करें।